

MARWADI SAMMELAN'S

B. M. RUIA GIRLS' COLLEGE

NAAC Accredited B+ 3rd Cycle

Affiliated to S.N.D.T. Women's University, Mumbai

11, Krishna Kunj, Vachha Gandhi Road, Gamdevi, Grant Road (West), Mumbai- 400007.

Tel : 022 23808130, E mail : bmruiya@yahoo.com, Web : bmrgirlscollege.com



हिंदी विभाग

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल'



महाविद्यालय के विषय में

स्त्री शिक्षा के लिए समर्पित संस्था मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा संचालित बी.एम.रुइया गर्ल्स कॉलेज की स्थापना 1958 में हुई थी। राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से स्त्री शिक्षा में निरंतर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला यह मुंबई का प्रथम महिला महाविद्यालय है। एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय से संबद्ध, मात्र पाँच छात्राओं से आरंभ होने वाला यह नन्हा-सा पौधा आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है और समय के साथ चलते हुए निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारे महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय, बी.एम.एस., अंग्रेजी माध्यम से, तथा कला संकाय हिंदी माध्यम से तीन मुख्य विषयों के साथ :- हिंदी, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र से छात्राओं को शिक्षित कर रहा है और समय की मांग को देखते हुए मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा बी.सी.ए. और बी.एम.एम. जैसे व्यवसायिक डिग्री कोर्स (वोकेशनल कोर्स) अंग्रेजी माध्यम से चलाए जा रहे हैं। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा महाविद्यालय समय-समय पर शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियां करता रहा है। एकेडमिक दृष्टि से हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने लगातार यूनिवर्सिटी टॉपर का कई बार स्वर्ण पदक हासिल किया है।

विभाग के विषय में

बी.एम.रुइया गर्ल्स कॉलेज की स्थापना से ही नींव के रूप में हिंदी विभाग अत्यंत सक्रिय रूप से कार्यरत हो महाविद्यालय को समृद्ध करता रहा है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदी विभाग प्रतिवर्ष प्रेमचंद सप्ताह, हिंदी सप्ताह, वाद-विवाद कथा-कथन, भाषण, कहानी लेखन, निबंध लेखन, हिंदी कविताओं पर आधारित अंताक्षरी, स्वरचित एवं कवि रचित काव्य-पाठ, भजन-गायन, शोध-प्रपत्र प्रस्तुति आदि प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय व अंतर महाविद्यालय स्तर पर करता रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग समय-समय पर अतिथि व्याख्यान, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगोष्ठियों व कार्यशालाओं का आयोजन भी करता रहता है।

प्रपत्र हेतु

जैसा कि हम सभी जानते हैं की हमारा देश आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है इस गौरवशाली अवसर पर हिंदी विभाग द्वारा जश्न-ए-आजादी : अमृत महोत्सव राष्ट्रीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। जिसके अंतर्गत आजादी के इन 75 वर्षों में हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास अतिथि व्याख्यान द्वारा किया जा रहा है। हमारा महाविद्यालय नारी-शिक्षा, सबलीकरण, सशक्तिकरण के लिए 106 वर्षों से निरंतर अपना अमूल्य योगदान देनेवाले गौरवशाली एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय से संबद्ध है और हमारी संस्था मारवाड़ी सम्मेलन भी स्त्री-शिक्षा के प्रति समर्पित रही है इसलिए **आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विभाग द्वारा इन 75 वर्षों में साहित्य और सिनेमा में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करने हेतु ISBN पुस्तक के प्रकाशन की योजना विभाग द्वारा बनाई गई है।**

MARWADI SAMMELAN'S

B. M. RUIA GIRLS' COLLEGE

NAAC Accredited B+ 3rd Cycle

Affiliated to S.N.D.T. Women's University, Mumbai

11, Krishna Kunj, Vachha Gandhi Road, Gamdevi, Grant Road (West), Mumbai- 400007.

Tel : 022 23808130, E mail : bmruiya@yahoo.com, Web : bmrgirlscollege.com



हिंदी विभाग

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल'



इसके लिए आपके शोध-पत्र सादर आमंत्रित है। हमें आपसे सहयोग की पूर्ण आशा व विश्वास हैं इस पुस्तक का मुख्य विषय है :- जश्न-ए-आजादी : अमृत महोत्सव, हिंदी गद्य-साहित्य और सिनेमा में महिलाओं का योगदान।

मुख्य विषय पर आधारित उप विषय इस प्रकार हैं :-

कथा-साहित्य में महिला लेखिकाओं का योगदान ।

आजादी के 75 वर्षों में महिला कथा-लेखन के विभिन्न पड़ाव ।

महिला कथा-लेखन की विशेषताएं ।

महिला उपन्यासकार ।

महिला कहानीकार ।

महिला निबंधकार ।

संस्मरण व रेखाचित्र और महिला लेखिकाओं का योगदान ।

जीवनी और महिला लेखन ।

आत्मकथाकार लेखिकाएँ ।

नाट्य साहित्य में लेखिकाओं का योगदान ।

नाटक और महिला निर्देशिकाएँ ।

सिनेमा कथा/पटकथा लेखन में महिलाओं की भूमिका ।

संवाद/गीत लेखन में महिलाओं का योगदान ।

सिनेमा- निर्देशन में महिलाओं की भूमिका ।

आप सिनेमा और कथा साहित्य में योगदान देनेवाली किसी भी महिला पर मुख्य विषय को ध्यान में रखकर अपने शोध पत्र भेज सकते हैं, साथ ही आप प्रमुख विषय से जुड़े अन्य किसी भी विषय पर अपना प्रपत्र भेज सकते हैं ।

आप अपने प्रपत्र भेजने की सूचना दिनांक 28 फरवरी 2022 तक दे सकते हैं और आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने प्रपत्र दिनांक 15 मार्च 2022 तक भेज दें ।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें -

डॉ सुनीता मिश्रा :- 9819647505 श्री रामलखन पाल :- 9969431444

E mail : research@bmruiyacollege.com

